



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 फाल्गुन 1935 (श0)
(सं0 पटना 303) पटना, शुक्रवार, 14 मार्च 2014

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

16 जनवरी 2014

सं0 1922—कन्नीराम केजरीवाल चैरिटेबुल ट्रस्ट धर्मशाला, भभुआ पर्षद के तहत निबंधित एक सार्वजनिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0— 3569 है।

उपर्युक्त विषयक न्यास से संबंधित सिविल रिट याचिका सं0—12564/2004 एवं सं0 13397/2004 में दिनांक 18/06/2012 को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा न्यास समिति के गठन का आदेश दिया गया था। उक्त आदेश के आलोक में पर्षदीय पत्रांक—1224, दिनांक 17/09/2012 द्वारा जिला पदाधिकारी, कैमुर (भभुआ) से न्यास समिति के गठन हेतु नाम भेजने का आग्रह किया गया था। जिला पदाधिकारी, कैमुर (भभुआ) से न्यास समिति के गठन हेतु ग्यारह व्यक्तियों के नामों की सूची प्राप्त हुई है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के आलोक में कन्नीराम केजरीवाल चैरिटेबुल ट्रस्ट, भभुआ धर्मशाला के सुचारु प्रबंधन और सम्यक विकास हेतु बिहार राज्य धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा— 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः बिहार हिन्दु धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा—32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उप विधि सं0— 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए **कन्नीराम केजरीवाल चैरिटेबुल ट्रस्ट धर्मशाला, भभुआ** के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है।

योजना

1. अधिनियम की धारा— 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **“कन्नीराम केजरीवाल चैरिटेबुल ट्रस्ट धर्मशाला न्यास योजना, भभुआ”** होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **“कन्नीराम केजरीवाल चैरिटेबुल ट्रस्ट धर्मशाला न्यास समिति, भभुआ”** होगा, जिसमें न्यास की समग्र चल—अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
 4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना, न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
 5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।
 6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।
 7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा, तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।
 8. न्यास समिति इस न्यास की अतिक्रमित सम्पत्तियों का पता लगाकर, उन्हें न्यास के नियंत्रण में लाने का प्रयास करेगी।
 9. न्यास के दुकानों का किराया वर्तमान बाजार दर पर निर्धारित की जायेगी।
 10. न्यास समिति, न्यास के प्रबंधक/कर्मचारियों की नियुक्ति विहित प्रक्रिया के तहत करेगी और उस पर पर्षद की स्वीकृति प्राप्त करेगी।
 11. न्यास समिति, न्यास के विगत 10 वर्षों के आय-व्यय के लेखा का अंकक्षण किसी विश्वसनीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट से करायेगी और प्रतिवेदन पर्षद को समर्पित करेगी।
 12. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
 13. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायें या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। न्यास समिति को न्यास की सम्पत्तियों के हस्तान्तरण का अधिकार नहीं होगा।
 14. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है:-

(1) कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, भभुआ	—	पदेन अध्यक्ष
(2) श्री अजय सिंह पटेल, पिता— सुबाष सिंह पटेल, ग्राम— अखलासपुर, पटिया	—	उपाध्यक्ष
(3) श्री देवलाल पासवान, पिता— कबिलास पासवान, वार्ड नं०— 11	—	सचिव
(4) श्री रामेश्वर सिंह, पिता— स्व० इकबाली सिंह, वार्ड नं०— 20	—	संयोजक
(5) श्री बलिराम सिंह, पिता— स्व० राम बिलास सिंह, वार्ड नं०— 09	—	कोषाध्यक्ष
(6) श्री विनोद कुमार गुप्ता— पिता— सकुन गुप्ता, वार्ड नं०— 09	—	सदस्य
(7) श्री ओम प्रकाश पासवान, पिता— स्व० धनराज पासवान, वार्ड नं०— 25	—	“
(8) श्री संजय चौबे, पिता— सत्यनारायण चौबे, वार्ड नं०— 13	—	“
(9) श्री सुजीत कुमार सिंह, पिता— स्व० उग्रह सिंह, वार्ड नं०— 11	—	“
(10) श्री संजय कुमार, पिता— शिवनाथ प्रसाद, वार्ड नं०— 23	—	“
(11) श्री विजय कुमार केजरीवाल, पिता— स्व० इन्द्रचन्द केजरीवाल	—	“

उपरोक्त योजना दिनांक 25/01/2014 से प्रभावी होगी और समिति का कार्यकाल 05 वर्ष की होगा, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर इसकी निरन्तरता कायम रहेगी।

विश्वासभाजन,
किशोर कुणाल,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 303-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>